

प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में सिक्के

प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में सिक्के

ऐसा माना जाता है कि सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग चीन और ग्रीस में (~700 ई.पू.) तथा भारत में छठी शताब्दी ई.पू. में हुआ था।

पंचमार्क सिक्के (600-200 ईसा पूर्व)

- ⌚ सबसे प्राचीन सिक्के; केवल एक तरफ से ढाले गए
- ⌚ अनियमित, मानक वज़न, चिह्नित चाँदी से निर्मित
- ⌚ **महाजनपदों द्वारा जारी किये गए-** जिन्हें पुराण, करशापन या पण कहा जाता है
- ⌚ **मौर्य काल के सिक्के-** रूपरूप (चाँदी), सुवर्णरूप (सोना), ताम्ररूप (ताँबा), सीसरूप (sisarupa) (सीसा)

इंडो-ग्रीक सिक्के (180 ई.पू. - 10 ई.)

- ⌚ चाँदी, ताँबा, निकल और सीसे से निर्मित
- ⌚ जारी करने वाले सम्राट के बारे में जानकारी देते हैं
- ⌚ सिक्का शिलालेख- ग्रीक और पाली

सातवाहन सिक्के (232 ई.पू.-227 ई.)

- ⌚ सीसे (अधिकतर), चाँदी (कुछ) और पोटिन (ताँबा-चाँदी मिश्र धातु) से निर्मित
- ⌚ कोई कलात्मक गुण/सुंदरता नहीं
- ⌚ इसमें उज्जैन का प्रतीक शामिल है- दो क्रॉसिंग लाइनों के अंत में चार वृत्तों वाला एक क्रॉस
- ⌚ सिक्का शिलालेख- प्राकृत

गुप्तकालीन सिक्के (319-550 ई.)

- ⌚ सोना (मुख्यतः), चाँदी और ताँबे से निर्मित
- ⌚ चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जारी किये गए चाँदी के सिक्के
- ⌚ अश्वमेध करने की जानकारी, भारतीय देवी-देवताओं की मूर्तियाँ
- ⌚ **सिक्का शिलालेख-** संस्कृत

अन्य प्राचीन सिक्के

- ⌚ **चालुक्यकाल के सिक्के:** एक तरफ मंदिर/शेर/किंवदंतियाँ /सूअर, दूसरी तरफ खाली जगह
- ⌚ **राजपूतकालीन सिक्के:** सोने, ताँबे, बिलोन (चाँदी-ताँबे की मिश्रधातु) और कभी-कभी चाँदी से निर्मित
- ⌚ **पांड्यकालीन सिक्के:** संस्कृत (सोने) और तमिल (ताँबे) में शिलालेखों के साथ चौकोर आकार
- ⌚ **चोलकालीन सिक्के:** संस्कृत शिलालेख के साथ राजा और देवी का चित्रण

तुकी और दिल्ली सल्तनत के सिक्के

- ⌚ इस्लाम में मूर्तिपूजा के निषेध के कारण राजा की कोई प्रतिमा नहीं
- ⌚ सोना, चाँदी, ताँबा और अरबी सिक्के
- ⌚ चाँदी का टका और ताँबे का जीतल- इल्लुतमिश द्वारा प्रारंभ किया गया
- ⌚ **कास्य, ताँबे के सिक्के, सांकेतिक कागज़ी मुद्रा-** मुहम्मद बिन तुगलक
- ⌚ **रूपया और बाँध-** शेरशाह सूरी

मुगलकालीन सिक्के

- ⌚ मोहर नामक सोने के सिक्के; चाँदी का रूपया सबसे लोकप्रिय (दाम से अपनाया गया)
- ⌚ **अकबर के समय के सिक्के:** गोल और चौकोर दोनों; सोने के सिक्के जिन्हें इलाही कहा जाता है (दीन-ए-इलाही का प्रचार करने के लिये); **शहंशाह-** सबसे बड़ा सोने का सिक्का

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/coins-in-ancient-and-medieval-india-1>

